

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग  
रेसीडेन्सी एरिया  
इन्दौर

क्रमांक—103 / 2019 / सेट

इन्दौर, दिनांक 20.01.2019

प्रावधिक उत्तर कुंजी

—:: विज्ञप्ति ::—

आयोग के विज्ञापन क्रमांक—06 / 2018 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा –2018 के विषय—रसायनशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की परीक्षा दिनांक— 20.01.2019 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों की प्रावधिक उत्तर कुंजी परीक्षा परिणाम बनाने के पूर्व आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर अपना रोल नंबर एवं प्रवेश पत्र पर दिये गये पासवर्ड की सहायता से लॉग—इन कर अपनी रिस्पांस शीट का अवलोकन कर सकते हैं। यदि इस प्रावधिक उत्तर कुंजी के संबंध में किसी परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति हो तो वे ऑनलाईन आपत्तियां 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी प्रश्न क्रमांक, संदर्भ ग्रन्थों का नाम एवं दस्तावेज संलग्न करें। प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाईट पर अपलोड होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। यह विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) & [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) पर दिनांक 20.01.2019. से उपलब्ध है।

२०३ का-१०२

(डॉ. आर.आर.कान्हेरे)  
परीक्षा नियंत्रक

# State Eligibility Test - 2018

## (Model Answer Key)

### Chemical Science

**Q1 :** Choose the correct order for electron affinity

इलैक्ट्रान बंधुता के लिए सही क्रम चुनिए।

A	F > Cl > Br > I
B	F < Cl > Br > I
C	F < Cl < Br < I
D	F < Cl < Br < I
None of these	
D	इनमें से कोई नहीं

Answer Key: **B**

**Q2 :** On the basis of molecular orbital theory, the bond orders in CO and CN are:

आणिक कक्षक सिद्धान्त के आधार पर CO और CN में आबन्ध क्रम होगा

A	2 and 2.5 respectively
A	2 तथा 2.5 क्रमशः
B	2.5 and 3 respectively
B	2.5 तथा 2 क्रमशः
C	3 and 2.5 respectively
C	3 तथा 2.5 क्रमशः
D	3 and 2 respectively
D	3 तथा 2 क्रमशः

Answer Key: **C**

Under similar conditions the extent of ion exchange in exchange column occurs in the order:

**Q3 :** समान परिस्थितीयों में विनिमय स्तंभ में आयन विनिमय की सीमा का क्रम होता है।

A	$\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{NH}_4^+ < \text{K}^+ < \text{Rb}^+ < \text{Cs}^+$
B	$\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{NH}_4^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+ > \text{Cs}^+$
C	$\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{NH}_4^+ < \text{K}^+ < \text{Rb}^+ < \text{Cs}^+$
D	$\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{NH}_4^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+ > \text{Cs}^+$
Answer Key: C	

**Q4 :** The correct statement for the molecule,  $\text{CsI}_3$  is

$\text{CsI}_3$  अणु के लिए सही कथन है-

A	It is a covalent molecule यह एक सहसंयोजी अणु है
B	It contains $\text{Cs}^+$ and $\text{I}_3^-$ ions इसमें $\text{Cs}^+$ और $\text{I}_3^-$ आयन है
C	It contains $\text{Cs}^{3+}$ and $\text{I}^-$ ions इसमें $\text{Cs}^{3+}$ और $\text{I}^-$ आयन है
D	None of these इनमें से कोई नहीं
Answer Key: B	

**Q5 :** Which species among the following has pyramidal shape

निम्न में से कौनसी प्रजाति (स्पीषीज़) की आकृति पिरामिडीय है ?

A	$\text{SO}_3^{2-}$ $\text{SO}_3^{2-}$
B	$\text{SO}_4^{2-}$ $\text{SO}_4^{2-}$
C	$\text{InCl}_4^{2-}$ $\text{InCl}_4^{2-}$
	$\text{PCl}_6^-$

D  $\text{PCl}_6^-$

Answer Key: A

**Q6 :** Among  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{P}_2\text{O}_3$  and  $\text{SO}_2$  the correct order of acid strength is -

$\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{P}_2\text{O}_3$  और  $\text{SO}_2$  में से अम्लता का सही क्रम है

A  $\text{SO}_2 < \text{P}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{Al}_2\text{O}_3$

$\text{SO}_2 < \text{P}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{Al}_2\text{O}_3$

B  $\text{SiO}_2 < \text{SO}_2 < \text{Al}_2\text{O}_3 < \text{P}_2\text{O}_3$

$\text{SiO}_2 < \text{SO}_2 < \text{Al}_2\text{O}_3 < \text{P}_2\text{O}_3$

C  $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{SO}_2 < \text{P}_2\text{O}_3$

$\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{SO}_2 < \text{P}_2\text{O}_3$

D  $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{P}_2\text{O}_3 < \text{SO}_2$

$\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{P}_2\text{O}_3 < \text{SO}_2$

Answer Key: D

**Q7 :** Which of the following species is capable of functioning both as Brönsted acid and base?

निम्न में से कौनसी प्रजाति (स्पीषीज़) ब्रोन्स्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकती है ?

A  $\text{CO}_3^{2-}$

$\text{CO}_3^{2-}$

B  $\text{F}^-$

$\text{F}^-$

C  $\text{HS}^-$

$\text{HS}^-$

D  $\text{S}^{2-}$

$\text{S}^{2-}$

Answer Key: C

**Q8 :** Out of the following ionic substances, which one has the greatest lattice enthalpy?

नीचे दिये गए आयनिक पदार्थों में किस में सर्वाधिक जालक एन्थैल्पी है ?

A  $\text{MgO}$

$\text{MgO}$

B  $\text{MgS}$

$\text{MgS}$

$\text{NaF}$

C	NaF
D	NaBr
	NaBr

## Answer Key: A

**Q9 :** Which statement is incorrect?

## कौन सा कथन असत्य है ?

A	Zn(OH) <sub>2</sub> is insoluble in water Zn(OH) <sub>2</sub> , जल में अविलेय है
B	Zn(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> is insoluble in liquid ammonia Zn(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> , द्रव अमोनिया में अविलेय है
C	Alkali metal salts of [Zn(OH) <sub>4</sub> ] <sup>2-</sup> are soluble in water [Zn(OH) <sub>4</sub> ] <sup>2-</sup> के क्षारीय धातु लवण जल में विलेय है
D	Alkali metal salts of [Zn(NH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> ] <sup>2-</sup> are insoluble in liquid ammonia [Zn(NH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> ] <sup>2-</sup> के क्षारीय धातु लवण द्रव अमोनिया में अविलेय है

**Answer Key: D**

**Q10 :** Match the list I and list II

### List I

## List II

$$\text{I} \quad [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$$

(a) sp<sup>3</sup>d

II Fe(CO)<sub>5</sub>

(b) sp

### III ClF<sub>3</sub>

(c)  $\text{sp}^3\text{d}$  (T-shaped)

#### IV [SbF<sub>6</sub>]<sup>-</sup>

(d)  $\text{sp}^3\text{d}^2$

V IF<sub>7</sub>

(e)  $\text{sp}^3\text{d}^3$

निम्न तालिका I और तालिका II को सुमेलित कीजिये।

**तालिका I                                    तालिका II**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| I $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ | (a) $\text{sp}^3\text{d}$            |
| II $\text{Fe}(\text{CO})_5$      | (b) $\text{sp}$                      |
| III $\text{ClF}_3$               | (c) $\text{sp}^3\text{d}$ (T-shaped) |
| IV $[\text{SbF}_6]^-$            | (d) $\text{sp}^3\text{d}^2$          |
| V $\text{IF}_7$                  | (e) $\text{sp}^3\text{d}^3$          |

	I	II	III	IV	V
A	a	b	c	d	e
	I	II	III	IV	V
B	a	b	c	d	e
	I	II	III	IV	V
C	b	a	c	d	e
	I	II	III	IV	V
D	a	b	c	e	d
	I	II	III	IV	V
	b	c	a	e	d
	I	II	III	IV	V
	b	c	a	e	d

Answer Key: B

**Q11 :** The crystal field splitting for  $\text{Cr}^{3+}$  ion in octahedral field increases for ligands  $\text{I}^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CN}^-$  in which of the following order

अष्टफलकीय क्षेत्र में  $\text{Cr}^{3+}$  आयन के लिए क्रिष्टल क्षेत्र विपाटन  $\text{I}^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CN}^-$  लिंगेण्डों के लिए निम्न में से किस क्रम में बढ़ता है ?

A	$I^- < H_2O < NH_3 < CN^-$
B	$CN^- < I^- < H_2O < NH_3$
C	$CN^- < NH_3 < H_2O < I^-$
D	$NH_3 < H_2O < I^- < CN^-$
Answer Key: A	

**Q12 :** The complex compound  $[Pt(Br)(SCN)(NH_3)_2]$  shows  
जटिल यौगिक  $[Pt(Br)(SCN)(NH_3)_2]$  दर्शाता है

A	Optical isomerism प्रकाशीय समावयवता
B	Linkage isomerism बंधनी समावयवता
C	Co-ordination isomerism समन्वयी समावयवता
D	Ionisation isomerism आयनन समावयवता
Answer Key: B	

**Q13 :** The order of decreasing reducing strength of  $Eu^{2+}$ ,  $Sm^{2+}$  and  $Yb^{2+}$  is -  
 $Eu^{2+}$ ,  $Sm^{2+}$  और  $Yb^{2+}$  की अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम है -

A	$Eu^{2+} > Sm^{2+} > Yb^{2+}$ $Eu^{2+} > Sm^{2+} > Yb^{2+}$
B	$Sm^{2+} > Eu^{2+} > Yb^{2+}$ $Sm^{2+} > Eu^{2+} > Yb^{2+}$
C	$Yb^{2+} > Sm^{2+} > Eu^{2+}$ $Yb^{2+} > Sm^{2+} > Eu^{2+}$
D	$Eu^{2+} > Yb^{2+} > Sm^{2+}$ $Eu^{2+} > Yb^{2+} > Sm^{2+}$
Answer Key: B	

**Q14 :** Choose the correct order of stabilities of oxidation states

आक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का सही क्रम चुनिए।

A	$\text{UO}_2^{2+} > \text{NpO}_2^{2+} > \text{PuO}_2^{2+} > \text{AmO}_2^{2+}$
	$\text{UO}_2^{2+} > \text{NpO}_2^{2+} > \text{PuO}_2^{2+} > \text{AmO}_2^{2+}$
B	$\text{UO}_2^{2+} < \text{NpO}_2^{2+} < \text{PuO}_2^{2+} < \text{AmO}_2^{2+}$
	$\text{UO}_2^{2+} < \text{NpO}_2^{2+} < \text{PuO}_2^{2+} < \text{AmO}_2^{2+}$
C	$\text{UO}_2^{2+} > \text{NpO}_2^{2+} < \text{PuO}_2^{2+} > \text{AmO}_2^{2+}$
	$\text{UO}_2^{2+} > \text{NpO}_2^{2+} < \text{PuO}_2^{2+} > \text{AmO}_2^{2+}$
D	$\text{UO}_2^{2+} < \text{NpO}_2^{2+} > \text{PuO}_2^{2+} < \text{AmO}_2^{2+}$
	$\text{UO}_2^{2+} < \text{NpO}_2^{2+} > \text{PuO}_2^{2+} < \text{AmO}_2^{2+}$

Answer Key: A

**Q15 :** Which conditions are true for the oxidative addition reaction to occur

- I. vacant coordination sites must be available
- II. suitable orbital be available for bond formation
- III. the metal should be present in higher oxidation state
- IV. there should be oxidation of metal by two units

आक्सीकारक संकलन अभिक्रिया सम्पत्र होने के लिए कौनसी परिस्थितियाँ सही हैं

- I. रिक्त उपसहसंयोजन स्थान की उपलब्धता
- II. बंधन निर्माण के लिए उपयुक्त कक्ष की उपलब्धता
- III. धातु उच्च आक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होना चाहिए
- IV. धातु का आक्सीकरण दो इकाई से होना चाहिए

A	I,II,III
	I,II,III
B	I,III,IV
	I,III,IV
C	I,II, IV
	I,II,IV
D	II,III,IV
	II,III,IV

Answer Key: C

**Q16 :** The structure of spinels  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  and  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  respectively, are

स्पिनेल  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  और  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  की सरंचना क्रमशः होती है

Normal and normal

A	सामान्य और सामान्य
B	Inverse and inverse प्रतीप और प्रतीप
C	Inverse and normal प्रतीप और सामान्य
D	Normal and inverse सामान्य और प्रतीप
Answer Key: D	

**Q17 :** Post-precipitation differs from co-precipitation in several aspects. Choose the incorrect statement about this:

पष्च अवक्षेपण कई प्रकार से सह-अवक्षेपण से भिन्न होता है। इस बारे असत्य कथन चुनिये।

A	The contamination increases with the time that the precipitate is left in contact with mother liquor in post-precipitation but decreases in co-precipitation अवक्षेप को मातृद्रव के सम्पर्क में रहने दिया जाए तो पष्च-अवक्षेपण में समय के साथ संदूषण बढ़ता है लेकिन सह-अवक्षेपण में घटता है
B	The contamination increases the faster the solution is agitated, but reverse is true with co-precipitation विलयने को तेजी से प्रेक्षोभित करने पर संदूषण बढ़ता है परन्तु सह-अवक्षेपण में इसका विपरीत सत्य है
C	The magnitude of contamination by post-precipitation is usually greater than in co-precipitation पष्च अवक्षेपण द्वारा संदूषण का परिमाण प्रायः सह-अवक्षेपण से अधिक होता है
D	The magnitude of contamination by post-precipitation is usually lesser than in co-precipitation पष्च अवक्षेपण द्वारा संदूषण का परिमाण प्रायः सह-अवक्षेपण से कम होता है
Answer Key: D	

**Q18 :** Correct order of CO stretching vibration frequency is

CO तनन कम्पन आवृत्ति का सही क्रम है

A	$[\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-} > [\text{V}(\text{CO})_6]^- > \text{CO} > [\text{Cr}(\text{CO})_6]$
B	$[\text{Cr}(\text{CO})_6] > \text{CO} > [\text{V}(\text{CO})_6]^- > [\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$
C	$\text{CO} > [\text{V}(\text{CO})_6]^- > [\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-} > [\text{Cr}(\text{CO})_6]$
	$\text{CO} > [\text{V}(\text{CO})_6]^- > [\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-} > [\text{Cr}(\text{CO})_6]$

D	$\text{CO} > [\text{Cr}(\text{CO})_6] > [\text{V}(\text{CO})_6]^- > [\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$
	$\text{CO} > [\text{Cr}(\text{CO})_6] > [\text{V}(\text{CO})_6]^- > [\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$

Answer Key: D

**Q19 :** Organometallic compound  $[\text{W}(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})_2]$  follow 18-electron rule. The hepticities of two cyclopentadienyl groups are -

कार्बोधात्विक यौगिक  $[\text{W}(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})_2]$  18 इलैक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। दो साइक्लोपैन्टाडाइएनिल समूह की हैप्टिसिटि है-

A	5 and 5
	5 और 5
B	3 and 5
	3 और 5
C	3 and 3
	3 और 3
D	1 and 5
	1 और 5

Answer Key: B

**Q20 :** Metal-metal bond order (M-M) in the cluster compound  $\text{Na}_2[\text{Mo}_2(\text{HPO}_4)_4]$  is

गुच्छ यौगिक  $\text{Na}_2[\text{Mo}_2(\text{HPO}_4)_4]$  का धातु-धातु बन्ध क्रम (M-M) है-

A	3.5
	3.5
B	3
	3
C	2.5
	2.5
D	4
	4

Answer Key: B

**Q21 :** The active site of 'nitrogenase' contains the metal ions

नाइट्रोजीनेज़ के सक्रिय स्थल पर धातु आयन होते हैं-

Fe, Mo
--------

A	Fe, Mo
B	Ni, Fe
C	Fe, Cu
D	Fe, Cu
	Fe, W
	Fe, W
Answer Key: A	

**Q22 :** Choose the correct statement for the state of iron in deoxymyoglobin and oxymyoglobin, respectively

डीआक्सीमायोग्लोबीन तथा आक्सीमायोग्लोबीन में आयरन की अवस्था के लिए क्रमशः सही कथन चुनिये।

A	Fe(II) high spin, Fe(III) low spin Fe(II) उच्च प्रचक्रण, Fe(III) निम्न प्रचक्रण
B	Fe(III) high spin, Fe(III) low spin Fe(III) उच्च प्रचक्रण, Fe(III) निम्न प्रचक्रण
C	Fe(II) high spin, Fe(II) low spin Fe(II) उच्च प्रचक्रण, Fe(II) निम्न प्रचक्रण
D	Fe(III) low spin, Fe(II) high spin Fe(III) निम्न प्रचक्रण, Fe(II) उच्च प्रचक्रण
Answer Key: C	

**Q23 :** The half-life of  $^{24}\text{Na}_{11}$  is fifteen hours. The percentage of original radioactivity would be present after sixty hours-

$^{24}\text{Na}_{11}$  की अर्ध आयु 15 घन्टे है। 60 घन्टे बाद उपस्थित मूल रेडियो सक्रियता का प्रतिष्ठत होगा-

A	8.25%
B	6.25%
C	12.5%
	12.5%
	25%

D 25%

Answer Key: B

**Q24 :** An example of a metal cluster with no bridging ligand is

एक धातु गुच्छ जिसमें सेतुबन्ध लिंगैण्ड नहीं है, का एक उदाहरण है-

A  $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$

$\text{Fe}_2(\text{CO})_9$

B  $\text{Fe}_3(\text{CO})_{12}$

$\text{Fe}_3(\text{CO})_{12}$

C  $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$

$\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$

D  $\text{Co}_2(\text{CO})_8$

$\text{Co}_2(\text{CO})_8$

Answer Key: C

**Q25 :** How many hyperfine lines in ESR spectrum of  $\text{Mn}^{2+}$  is expected?

$\text{Mn}^{2+}$  के द्वारा ESR स्पेक्ट्रम में कितनी अतिसूक्ष्मीय रेखाएँ दिखाई जाती हैं ?

A 3

3

B 5

5

C 2

2

D 6

6

Answer Key: D

**Q26 :** In the Neptunium series  ${}_{94}\text{Pu}^{241} \longrightarrow \text{Am} \longrightarrow \text{Np} \longrightarrow \text{Pa} \longrightarrow {}_{92}\text{U}^{233}$  the radiation order is

नेप्ट्यूनियम श्रृंखला  ${}_{94}\text{Pu}^{241} \longrightarrow \text{Am} \longrightarrow \text{Np} \longrightarrow \text{Pa} \longrightarrow {}_{92}\text{U}^{233}$  में विकिरण का क्रम है-

A  $\beta, \alpha, \alpha, \beta$

$\beta, \alpha, \alpha, \beta$

$\beta, \beta, \alpha, \alpha$

B	$\beta, \beta, \alpha, \alpha$
C	$\alpha, \beta, \alpha, \beta$
	$\alpha, \beta, \alpha, \beta$
D	$\alpha, \alpha, \beta, \beta$
	$\alpha, \alpha, \beta, \beta$

Answer Key: A

<b>Q27 :</b> Choose the term symbol for the ground state of $\text{Ni}^{2+}$ ( $3d^8$ ) $\text{Ni}^{2+}$ ( $3d^8$ ) की आद्य अवस्था के लिए भवधी प्रतीक चुनिए।	
A	$^3F_2$
	$^3F_2$
B	$^3F_3$
	$^3F_3$
C	$^3F_4$
	$^3F_4$
D	$^3F_1$
	$^3F_1$

Answer Key: C

<b>Q28 :</b> According to the Wade's rule the structure type of $[\text{C}_2\text{B}_5\text{H}_7]$ Wade's नियम अनुसार $[\text{C}_2\text{B}_5\text{H}_7]$ अणु का गठन होगा-	
A	Closo
	Closo
B	Nido
	Nido
C	Hypho
	Hypho
D	Arachno
	Arachno

Answer Key: A

<b>Q29 :</b> The function of HI in Monsanto acetic acid process is मोन्सेन्टो एसीटिक अम्ल प्रक्रम में HI का कार्य होता है	
	Generation of $\text{CH}_3\text{I}$

A	CH <sub>3</sub> I की उत्पत्ति
B	Generation of stronger nucleophile CH <sub>3</sub> O <sup>-</sup>
C	प्रबल नाभि करने ही CH <sub>3</sub> O <sup>-</sup> की उत्पत्ति
D	Reduction of Rh(III) catalyst to Rh(I) form
	Rh(III) उत्प्रेरक का Rh(I) अवस्था में अपचयन
D	Oxidative addition of HI
	HI का उपचारी योग

Answer Key: A


**Q30 :** The point group for eclipsed conformation of ferrocene is

फेरोसीन की ग्रसित संरूपण के लिए बिन्दू समूह होता है

A	D <sub>5d</sub>
	D <sub>5d</sub>
B	C <sub>5h</sub>
	C <sub>5h</sub>
C	C <sub>5v</sub>
	C <sub>5v</sub>
D	D <sub>5h</sub>
	D <sub>5h</sub>

Answer Key: D

**Q31 :** The cell potential for the following electrochemical system at 25°C are-



$$[Given-E^{\circ}Al^{3+}/Al = -1.66V, E^{\circ}Fe^{2+}/Fe = -0.44V]$$

The EMF of the cell will be -

निम्नलिखित वैद्युत रासायनिक निकाय के 25°C पर सेल विभव है



$$[दिया है-E^{\circ}Al^{3+}/Al = -1.66V, E^{\circ}Fe^{2+}/Fe = -0.44V]$$

इस सेल का EMF होगा-

A	1.23V
	1.23 V
B	1.21 V
	1.21 V
	1-22 V

C	1-22 V
D	-2.10 V
	-2.10 V

Answer Key: A

**Q32 :** In Thermodynamics of open system thermodynamic parameters included are :  
खुले निकाय की उष्मागतिकी में शामिल उष्मागतिकीय मापदंड हैं-

A	T,P,V,S
	T,P,V,S
B	T,P,V,S,n
	T,P,V,S,n
C	T,P,n
	T,P,n
D	n only
	n only

Answer Key: B

**Q33 :** The Correct relation for simple Langmuir Isotherm is\_\_\_\_\_  
सरल लैग्म्यूर एमतापी के लिये सही रूप हैं-

A	$\theta = K_p$
	$\theta = K_p$
B	$\theta = (K_p)^{1/2}$
	$\theta = (K_p)^{1/2}$
C	$\theta = K_p / (1+K_p)$
	$\theta = K_p / (1+K_p)$
D	$\theta = 1 + K_p / K_p$
	$\theta = 1 + K_p / K_p$

Answer Key: C

**Q34 :** According to Boltzmann formula the number of configurations in the most probable state is \_\_\_\_\_  
बोल्टज़मान सूत्र के अनुसार सर्वाधिक संभावित अवस्था में विन्यासों की संख्या हैं-

	$e^{s/KB}$
--	------------

A	$e^{s/KB}$
B	$e^{-s/KB}$
C	$e^{-E/KBT}$
D	$e^{-\Delta G/KBT}$
Answer Key: A	

**Q35 :** When a diatomic gas adsorbs as atoms on the surface of a solid, the Langmuir adsorption isotherm becomes

जब एक द्विपरमाणवीय गैस एक ठोस की सतह पर परमाणुओं की तरह अधिष्ठित होती है तो लैग्म्यूर अधिष्ठण समताप हो जाता है

A	$\theta = \frac{(Kp)^{1/2}}{[1 + (Kp)^{1/2}]}$
B	$\theta = \frac{(Kp)^{1/2}}{[1 + (Kp)]}$
C	$\theta = \frac{(Kp)}{(1 + Kp)}$
D	$\theta = \frac{(1 + Kp)^{1/2}}{(Kp)^{1/2}}$
Answer Key: A	

**Q36 :** The Transport number of  $\text{Na}^+$  in  $\text{NaCl}$  is 0.60 at 500K, The transport number of  $\text{Cl}^-$  ion is  
 $\text{NaCl}$  में  $\text{Na}^+$  की अभिगमन संख्या 500K पर 0.60 है तो  $\text{Cl}^-$  की अभिगमन संख्या है-

A	0.50
	0.50
B	0.60
	0.60
C	0.40
	0.40
D	1.0
	1.0

Answer Key: C



**Q37 :** In the Vibrational spectrum of  $\text{CO}_2$ , number of fundamental vibrational band common in IR and Raman spectrum are

$\text{CO}_2$  के कम्पन स्पेक्ट्रम में, मूलभूत कम्पनीय बैण्ड की संख्या जो अवरक्त व रमन स्पेक्ट्रम में उमर्यनिष्ठ, वह है-


A	3
	3
B	2
	2
C	1
	1
D	0
	0

Answer Key: D


**Q38 :** Given the half cell reactions



The standard potential  $E^\circ$  of the electrochemical cell  $\text{Pt}; \text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+}/\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Pt}$  and the equilibrium constant for the reaction



will be respectively



A	0.92 V; $9.15 \times 10^{15}$
	0.92 V; $9.15 \times 10^{15}$
B	0.62 V; $9.15 \times 10^{15}$
	0.62 V; $9.15 \times 10^{15}$
C	0.62 V; $9.55 \times 10^{20}$
	0.62 V; $9.55 \times 10^{20}$
D	0.92 V; $9.55 \times 10^{20}$
	0.92 V; $9.55 \times 10^{20}$

Answer Key: C

**Q39 :** For a reaction, the rate constant K at  $27^\circ\text{C}$  was found to be  $K = 5.4 \times 10^{11}\text{e}^{-50}$ .

The Activation energy of the reaction is

एक अभिक्रिया के लिए  $27^\circ\text{C}$  पर वेग नियतांक  $K = 5.4 \times 10^{11}\text{e}^{-50}$  पाया गया। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है

A	$50 \text{ J mol}^{-1}$
	$50 \text{ J mol}^{-1}$
B	$415 \text{ J mol}^{-1}$
	$415 \text{ J mol}^{-1}$
C	$15000 \text{ J mol}^{-1}$
	$15000 \text{ J mol}^{-1}$
D	$125,000 \text{ J mol}^{-1}$
	$125,000 \text{ J mol}^{-1}$

Answer Key: D

**Q40 :** Which Statement is true about a galvanic cell employing Pb, Cu,  $\text{Pb}^{2+}$  and  $\text{Cu}^{2+}$   $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0.127\text{V}$ ;  $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.518\text{V}$

गैल्वेनिक सेल जिसमें Pb, Cu,  $\text{Pb}^{2+}$  और  $\text{Cu}^{2+}$  तथा  $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0.127\text{V}$ ,  $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.518\text{V}$  के लिये कौन सा कथन सत्य है

A	Spontaneous cell reaction will be in the cell Pb/Pb <sup>2+</sup>   Cu <sup>2+</sup> /Cu सैल Pb/Pb <sup>2+</sup>   Cu <sup>2+</sup> /Cu में स्वतः सैल अभिक्रिया होगी
B	E°Cell = 0.645
C	E°Cell = 0.645
D	Both Spontaneous cell reaction will be in the cell Pb/Pb <sup>2+</sup>   Cu <sup>2+</sup> /Cu and E°Cell = 0.645 ए और बी दोनों सही हैं
	None of these इनमें से कोई नहीं
Answer Key: C	

<b>Q41 :</b> According to Arrhenius equation आर्हेनिअस समीकरण के अनुसार	
A	Ink decreases linearly with 1/T Ink ऐकिक ढंग से 1/T के साथ घटता है
B	Ink decreases linearly with T Ink ऐकिक ढंग से T के साथ घटता है
C	Ink increases linearly with 1/T Ink ऐकिक ढंग से 1/T के साथ बढ़ता है
D	Ink increases linearly with T Ink ऐकिक ढंग से T के साथ बढ़ता है
Answer Key: A	

<b>Q42 :</b> During the addition polymerisation, the reaction proceeds Via : संकलन बहुलीकरण में, अभिक्रिया होती है:	
A	Step-Growth process स्टेप-ग्रोथ प्रक्रम से
B	Free-Radical process मुक्त मूलक प्रक्रम से
C	Cascade process सोपानी पात प्रक्रम से
	Addition reaction

D संकलन अभिक्रिया से

Answer Key: B

**Q43 :** A carnot engine operates between 600 k and 800 k and absorbs 2000 Cal from the source per cycle. The work done (in cal) per Cycle.

एक कॉर्नो इंजिन जो 600 k और 800 k के बीच प्रचाल करता है तथा उद्गम से एक चक्र में 2000 Cal कैलोरी ऊर्जा सोखता है प्रत्येक चक्र में किया गया कार्य (कैलोरी में) होगा-

A	1000 cal
	1000 cal
B	500 cal
	500 cal
C	666 cal
	666 cal
D	200 cal
	200 cal

Answer Key: B

**Q44 :** The energy of a hydrogen atom in a state is  $-hcRH/25$  (RH - Rydberg constant). The degeneracy of the state will be

एक अवस्था में हाइट्रोजन परमाणु की ऊर्जा  $-hcRH/25$  है । ( RH - रिडबर्ग स्थिरांक) इस अवस्था की अपभ्रष्टता होगी-

A	10
	10
B	5
	5
C	50
	50
D	25
	25

Answer Key: D

**Q45 :** Which of the following electrolyte will have maximum coagulating value for  $\text{AgI}/\text{Ag}^+$  Sol.


निम्न में से किस विधुत अपघटय में अधिकतम  $\text{AgI}/\text{Ag}^+$  सॉल को स्कंदित करने की छमता है-

Na<sub>2</sub>S

A	Na <sub>2</sub> S
B	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
C	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
D	NaCl
	NaCl

Answer Key: **B**

**Q46 :** The Decomposition of  $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ , is



A	Zero order शून्य कोटि
B	First order प्रथम कोटि
C	Second order द्वितीय कोटि
D	Third order तृतीय कोटि

Answer Key: **B**

**Q47 :** The zero point energy of an election is ?

एक इलैक्ट्रॉन के लिए परम शून्य की ऊर्जा है-

A	$\frac{\hbar^2}{8ma^2}$
	$\hbar^2 / 8ma^2$
B	$8ma^2 / \hbar^2$
	$8ma^2 / h^2$
C	$\frac{\hbar^2}{4ma^2}$
	$\hbar^2 / 4ma^2$
D	$4ma^2 / \hbar^2$
	$4ma^2 / h^2$

Answer Key: **A**

**Q48 :** For the reversible process, the value of  $\Delta s$  is ?

उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए  $\Delta s$  ?

A	$q_{rev}/T$
B	$T/q_{rev}$
C	$q_{rev} \times T$
D	$q_{rev} + T$
Answer Key: A	

**Q49 :** What will be the molarity of the pure water ?

शुद्ध जल की मोलरता क्या है ?

A	18 M
B	1.8 M
C	55.5 M
D	5.55 M
Answer Key: C	

**Q50 :** The crystal system for which  $a \neq b \neq c$  and  $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$  is said to be

क्रिस्टल निकाय जिसके लिये  $a \neq b \neq c$  और  $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$  हो कहलाता है-

A	triclinic त्रिनताक्ष
	tetragonal

B	द्विसमलम्बाक्ष
C	cubic
	घनीय
D	orthorhombic
	विषम लंबाक्ष
Answer Key: D	

**Q51 :** Equal number (say 10) of molecules with  $M_1 = 10000$  and  $M_2 = 100000$  are mixed. The number average molar mass  $\bar{M}_n$  and mass average molar mass  $\bar{M}_m$  will be respectively -  
 $M_1 = 10000$  तथा  $M_2 = 100000$  समान द्रव्यमान वाले अणुओं को समान संख्या ( जैसे-10 ) में  
 मिश्रित किया जाता है। संख्या औसत मोलर द्रव्यमान  $\bar{M}_n$  तथा द्रव्यमान औसत मोलर द्रव्यमान  
 $\bar{M}_m$  क्रमशः होगा-

A	91818 and 55000
	91818 तथा 55000
B	55000 and 91818
	55000 तथा 91818
C	55000 and 91000
	55000 तथा 91000
D	51000 and 91818
	51000 तथा 91818

Answer Key: B

**Q52 :** Considering, 0.1M aqueous solution of each of the following, which solution has the lowest  $p^H$ ?  
 निम्न में से प्रत्येक का 0.1M जलीय विलयन मानते हुए, किस विलयन में सबसे कम  $p^H$  का मान होगा -

A	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
B	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
C	Na <sub>2</sub> S
	Na <sub>2</sub> S
	NaCl

D NaCl

Answer Key: D

**Q53 :** The Rate, r, of a zero order reaction  $A \rightarrow B$  can be expressed \_\_

शून्य कोटि अभिक्रिया  $A \rightarrow B$  की दर को व्यक्त किया जा सकता है-

A  $r = K[A]^{1/2}$

$r = K[A]^{1/2}$

B  $r = K$

$r = K$

C  $r = K [A]^2$



$r = K [A]^2$

D  $r = K [A]$



$r = K [A]$

Answer Key: B

**Q54 :** Electropotential data are given below.



Based on the data given above , reducing power of  $Fe^{2+}$ , Al and  $Br^-$  will increase in the order-  
वैद्युत विभव अँकड़े नीचे दिये गये हैं



उपरोक्त अँकड़ों के आधार पर  $Fe^{2+}$ , Al व  $Br^-$  की

अपचायक क्षमता का बढ़ते हुए क्रम होगा-

A  $Br^- < Fe^{2+} < Al$

$Br^- < Fe^{2+} < Al$

B  $Fe^{2+} < Al < Br^-$

$Fe^{2+} < Al < Br^-$

$Al < Br^- < Fe^{2+}$

C Al < Br<sup>-</sup> < Fe<sup>2+</sup>




D Al < Fe<sup>2+</sup> < Br<sup>-</sup>

Al < Fe<sup>2+</sup> < Br<sup>-</sup>

Answer Key: A

**Q55 :** "Phosphorescence" is represented by ----

"स्फुर्द्धाप्ति" को दर्शाते हैं -



Answer Key: A

**Q56 :** Which of the following is correct relation for critical temperature (T<sub>c</sub>) for a gas

क्रांतिक ताप (T<sub>c</sub>) के लिए सही सम्बन्ध हैं-

A  $8a/27Rb$

8a/27Rb

B  $a/27b^2$

a/27b<sup>2</sup>

C  $3b$

3b

D  $a/Rb$

a/Rb

Answer Key: A

**Q57 :** The Viscosity of which liquid is highest

किस द्रव की विस्कासिता अधिकतम होगी

Water

A	जल
B	Acetone
C	Ethanol
D	Glycol
	ग्लाइकॉल

Answer Key: D

**Q58 :** The radius ratio ( $r_+ / r_-$ ) in NaCl crystal is  
NaCl के त्रिज्या अनुपात ( $r_+ / r_-$ ) का मान है-

A	0.225
	0.225
B	0.208
	0.208
C	0.414
	0.414
D	0.802
	0.802

Answer Key: C

**Q59 :** The gold number of sols A,B,C and D are 0.04, 0.002, 10 and 25 respectively.  
The protecting power are in order of  
सॉल A,B,C और D के लिए स्वर्णाक्क क्रमशः 0.04,0.002,10 व 25 है। इनकी प्रतिरक्षा क्षमता का क्रम होगा-

A	A>B>C>D
	A>B>C>D
B	D>C>B>A
	D>C>B>A
C	D>C>A>B
	D>C>A>B
D	B>A>C>D
	B>A>C>D

Answer Key: D


**Q60 :** Which is the correct for phase rule

प्रावस्था नियम है-


A	$P+C = F+2$
	$P+C = F+2$
B	$F=P+C=2$
	$F=P+C=2$
C	$P+F= C+2$
	$P+F= C+2$
D	$P-F = C+2$
	$P-F = C+2$

Answer Key: C


**Q61 :** The IUPAC name of the following compounds are




and



निम्नलिखित यौगिको का IUPAC नाम हैं-



और




A	1,1,2-Trimethylcyclopentane and 3-(1-Methylethyl)hexane
	1,1,2-ट्राईमेथिल साइक्लोपेन्टेन और 3-(1-मेथिल ऐथिल) हैक्सेन
B	1,1,2-Trimethylcyclopentane and 3-Ethyl-2-methylhexane
	1,1,2-ट्राईमेथिल साइक्लोपेन्टेन और 3-ऐथिल-2-मेथिल हैक्सेन
C	1,2,2-Trimethylcyclopentane and 3-Ethyl-2-methylhexane
	1,2,2-ट्राईमेथिल साइक्लोपेन्टेन और 3-ऐथिल-2-मेथिल हैक्सेन
D	1,2,2-Trimethylcyclopentane and 3-(1-Methyl ethyl)hexane
	1,2,2-ट्राईमेथिल साइक्लोपेन्टेन और 3-(1-मेथिल ऐथिल) हैक्सेन

Answer Key: A

**Q62 :** Which of the following is the structure of (2S,3S)-3-bromo-2-butanol ?

निम्नलिखित में से (2S,3S)-3-ब्रोमो-2-ब्यूटेनॉल की संरचना कौन सी है ?

A	
B	
C	
D	




Answer Key: D

**Q63 :** Which of the following is most stable conformation ?

निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी संरूपण कौनसा है ?

- |   |  |
|---|--|
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |



Answer Key: **B**

**Q64 :** The reaction of 1-methyl-2-methylenecyclohexane with Pd/C in presence of hydrogen is हार्ड्रोजन की उपस्थिति में 1-मेथिल-2-मेथिलोनसाइक्लोहैक्सेन की Pd/C के साथ अभिक्रिया है-

A	Enantioselective उत्कर्म्म्य वरणात्मक
B	Diastereoselective अप्रतिबिम्बी त्रिविम वरणात्मक
C	Enantioselective and diastereoselective उत्कर्म्म्य वरणात्मक और अप्रतिबिम्बी त्रिविम वरणात्मक
D	None of these इनमें से कोई नहीं

Answer Key: **B**

**Q65 :** Which of the following method is comparatively better for asymmetric induction ?

निम्नलिखित में से कौन सी विधि असममित प्रेरण के लिये तुलनात्मक रूप से अच्छी है ?

A	Reagent controlled अभिकर्मक नियंत्रित
B	Substrate controlled अभिकारक नियंत्रित
C	Auxiliary controlled सहायक (आग्जिलियरी) नियंत्रित
D	Catalyst controlled उत्प्रेरक नियंत्रित

Answer Key: **D**

Which of the following compound undergo aromatic substitution reaction ?

**Q66 :** निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है ?

A	Tropolone ट्रोपोलोन
B	Ferrocene फैरोसीन
C	Azulene ऐजुलीन
D	All of these सभी सही हैं

Answer Key: D

**Q67 :** Identify the aromatic compound(s) among the following

निम्न में से ऐरोमैटिक यौगिक/यौगिकों को पहचानिए

A	Cyclopentadienyl cation साइक्लोपेंटाडाइनाईल धनायन
B	Cyclopentadienyl anion साइक्लोपेंटाडाइनाईल ऋणायन
C	Tropylium ion ट्रोपीलियम आयन
D	Tropylium ion and Cyclopentadienyl anion ट्रोपीलियम आयन और साइक्लोपेंटाडाइनाईल ऋणायन

Answer Key: D

**Q68 :** Reaction of singlet methylene with cis-butene results in the formation of

एकल(सिंगलेट) मेथिलीन की समपक्ष-ब्यूटीन के साथ अभिक्रिया करने पर बनता है।

A	cis-1,2-Dimethylcyclopropane समपक्ष-1,2-डाईमेथिलसाइक्लोप्रोपेन
B	trans-1,2-Dimethylcyclopropane विपक्ष-1,2-डाईमेथिलसाइक्लोप्रोपेन
	cis-1,2-Dimethylcyclopropane and trans-1,2-Dimethylcyclopropane

C समपक्ष-1,2-डाईमेथिलसाइक्लो प्रोपेन और विपक्ष-1,2-डाईमेथिलसाइक्लो प्रोपेन

D trans-1,2-Dimethylcyclopropene

विपक्ष-1,2-डाईमेथिलसाइक्लोप्रोपीन

Answer Key: A

**Q69 :** Thermal cleavage of dibenzoyl peroxide produces

डाईबैन्जायैल पर ऑक्साइड के तापीय बिदलन से प्राप्त होता है-

A Benzoyloxy radical

बैन्जोयलऑक्सी मूलक

B Phenyl radical

फेनिल मूलक

C Benzoyloxy radical and Phenyl radical

बैन्जोयलऑक्सी मूलक और फेनिल मूलक

D No radical

कोई मूलक नहीं

Answer Key: C

**Q70 :** Correct statement is

सही कथन है-

A Carboxylic acids do not undergo substitution reaction under basic conditions.

कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्षारीय माध्यम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं।

B Acid-catalyst increase the reactivity of carbonyl group in ketones.

अम्लीय उत्प्रेरक, किटोन के कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं।

C Base-catalysed hydrolysis of ester is irreversible.

ऐस्टर का क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन अनुत्क्रमणीय है।

D All of these

सभी कथन सही हैं।

Answer Key: D

**Q71 :** Which of the following hydrazine is more reactive towards aldehyde ?

निम्नलिखित में से कौनसा हाइड्रोजीन, ऐल्डिहाइड के प्रति ज्यादा क्रियाशील है

A	4-Methoxyphenyl hydrazine 4-मिथांक्सीफेनिल हाइड्रेजीन
B	4-Nitrophenyl hydrazine 4-नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन
C	2,4-Dinitrophenyl hydrazine 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन
D	Phenyl hydrazine फेनिल हाइड्रेजीन

Answer Key: A

**Q72 :** Clarify the position about the following statements in relation to stereochemistry in the Wittig reaction:

X: with stabilized ylid, Wittig reaction is E-selective.

Y: with unstabilized ylid, Wittig reaction is Z-selective.

विटिग अभिक्रिया में त्रिविम रसायन के संदर्भ में कथन की स्थिति को स्पष्ट करें :


X : विटिग अभिक्रिया स्थायीकृत इलिड(ylid) के साथ E-वरणात्मक है

Y : विटिग अभिक्रिया अस्थायीकृत इलिड(ylid) के साथ Z-वरणात्मक है


A	X is correct and Y is wrong X सही है और Y गलत है
B	X is correct and Y is correct X सही है और Y सही है
C	X is wrong and Y is correct X गलत है और Y सही है
D	X is wrong and Y is wrong X गलत है और Y गलत है

Answer Key: B

**Q73 :** The product of the following reaction is




निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद है-




A	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
B	$\text{CH}_3\text{CO CH(OH) CH}_3$
	$\text{CH}_3\text{CO CH(OH) CH}_3$
C	$\text{CH}_3\text{COCOCH}_3$
	$\text{CH}_3\text{COCOCH}_3$
D	None of these
	इनमें से कोई नहीं

Answer Key: B

**Q74 :** The following compound reacts with Grignard reagent via




निम्नलिखित यौगिक ग्रीन्यार अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है।




A	endo-approach only
	केवल एन्डो-उपगमन द्वारा

	exo-approach only
B	केवल ऐक्सो-उपगमन द्वारा
C	endo-approach and exo-approach एन्डो-उपगमन और ऐक्सो उपगमन द्वारा
D	less with endo-approach and more with exo-approach एन्डो-उपगमन से कम और ऐक्सो-उपगमन द्वारा अधिक
Answer Key: A	

**Q75 :** The product(s) of the following reaction is/are




निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद हैं/हैं-




A	$\text{RCH}_2\text{OCH}_2\text{R}$
	$\text{RCH}_2\text{OCH}_2\text{R}$
B	$\text{RCOOH} + (\text{CH}_3)_2\text{S}$
	$\text{RCOOH} + (\text{CH}_3)_2\text{S}$
C	$\text{RCHO} + (\text{CH}_3)_2\text{S}$
	$\text{RCHO} + (\text{CH}_3)_2\text{S}$
D	None of these
	इनमें से कोई नहीं

Answer Key: C

**Q76 :** Which disconnection approach is better for the synthesis of




निम्न के संश्लेषण के लिए कौनसी असंबंधन (disconnection) पद्धति अच्छी है ?




- A A reaction scheme showing cyclohexane reacting with a phenyl anion ( $\text{Ph}^-$ ). The products are 1-phenylcyclohexane and a carboxylate ion ( $\text{COO}^-$ ).
- B A reaction scheme showing cyclohexanone reacting with a methyl anion ( $\text{Me}^-$ ). The products are 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid and cyclohexene.
- C A reaction scheme showing 1-phenylpropan-1-one reacting with a cyclohexane anion ( $\text{C}_6\text{H}_{11}^-$ ). The products are cyclohexanecarboxylic acid and 1-phenylcyclohexene.

	All of these
D	सभी विकल्प सही
Answer Key: A	



**Q77 :** Write the product(s) of the following reaction



निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद हैं-







- |   |  |
|---|--|
| A |  |
| B |  |
| C |  |



Answer Key: A




**Q78 :** The alcoholic -OH group may be protected with



R

S

ऐल्कोहॉलिक -OH समूह का सरक्षण किया जाता है-



R

S

	P and Q
A	P और Q से
B	P, Q and R
	P, Q और R से
C	Q, R and S
	Q, R और S से

	P, Q, R and S
D	P, Q, R और S से
Answer Key: D	


**Q79 :** Which of the naturally occurring optical base pair is used to convert racemic mixture of carboxylic acid to diastereoisomers ?

प्राकृतिक रूप से प्राप्त कौनसा प्रकाषकीय क्षारीय युग्म कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऐसमिक मिश्रण को अप्रतिबिम्ब त्रिविम समावयवी में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है ?


A	Brucine and Strychnine ब्रूसीन और स्ट्रिक्नीन
B	Strychnine and Morphine स्ट्रिक्नीन और मॉर्फीन
C	Morphine and Brucine मॉर्फीन और ब्रूसीन
D	All of these सभी सही हैं

	Answer Key: D
--	---------------

**Q80 :** The following auxiliary is derived from




निम्नलिखित सहायक (आग्जिलिएरी) को व्युत्पित किया जाता है-




	(S)- Valine
A	(S)-वैलीन से
B	Phenylalanine
	फेनिल एलेनीन से
C	(1S,2R)-Norephedrine
	(1S,2R)-नार्फ़ड्रीन से
D	(1S,2S)-Norephedrine
	(1S,2S)- नार्फ़ड्रीन से
Answer Key: C	

**Q81 :** Which is the HOMO of 1,3,5-hexatriene under photochemical condition ?


प्रकाष रसायनिक परिस्थितियों के अन्तर्गत 1,3,5-हैक्साट्राइइन का HOMO कौन सा है ?













Answer Key: D

**Q82 :** The Product (s) of the following reaction is/are



निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद हैं-





Answer Key: C

**Q83 :** Which of the following conjugated diene(s) will react with dienophile under thermal condition in cycloaddition reaction?

निम्नलिखित में से कौनसा संयुग्मी डाईन साइक्लोएडीसन अभिक्रिया में तापीय परिस्थितियों के अन्तर्गत डाईनस्नेही से क्रिया करेगा?

A	
B	
C	
D	

Answer Key: D

**Q84 :** The amination of pyridine with  $\text{NaNH}_2$  in liquid  $\text{NH}_3$  is called  
पिरीडीन का  $\text{NaNH}_2$  के साथ द्रव  $\text{NH}_3$  में ऐमीनीकरण कहलाता है-

A	Suzuki reaction सुजुकि अभिक्रिया
B	Chichibabin reaction चिचिबेबिन अभिक्रिया
C	Heck reaction हैक अभिक्रिया

	Hoffman reaction
D	हॉफमैन अभिक्रिया
Answer Key: B	

	<b>Q85 :</b> Reaction of $\alpha$ -bromoacetone with thiourea gives $\alpha$ -ब्रोमोएसीटोन की थायोयूरिया के साथ अभिक्रिया देता है-
A	2-Amino-4-methylthiazole 2-ऐमिनो-4-मेथिल थायेजॉल
B	2-Mercapto-4-methylimidazole 2-मरकैप्टो-4-मेथिल इमिडैजॉल
C	2-Amino-4-methylthiazole and 2-Mercapto-4-methylimidazole 2-ऐमिनो-4-मेथिल थायेजॉल और 2-मरकैप्टो-4-मेथिल इमिडैजॉल
D	No product कोई उत्पाद नहीं
Answer Key: A	

	<b>Q86 :</b> Match the following		
K	Menthol	1	Steroid
L	Abietic acid	2	Monoterpenoid
M	Vitamin-D	3	Alkaloid
N	Morphine	4	Diterpenoid
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए			
K	मेन्थोल	1	स्टेरायड़
L	ऐबियेटिक अम्ल	2	मोनो टर्पिनॉयड़
M	विटामिन-डी	3	एल्किलॉयड़
N	मोर्फीन	4	डाईटर्पिनॉयड़

A	K-1, L-2, M-3, N-4 K-1, L-2, M-3, N-4
B	K-2, L-4, M-1, N-3 K-2, L-4, M-1, N-3
	K-4, L-2, M-3, N-1

C K-4, L-2, M-3, N-1

D K-2, L-1, M-4, N-3

K-2, L-1, M-4, N-3

Answer Key: B

**Q87 :** The biosynthesis of terpenoids involve

P: The formation of a biological isopentane unit from acetate (obtained from acetic acid)

Q: The condensation of biological isopentane unit to form acyclic terpenoid

टर्पिनायड के जैवसंश्लेषण में होता है।

P : ऐसीटेट (एसिटिक अम्ल से प्राप्त) से जैविक आइसोपेन्टेन इकाई का बनाना।

Q : ऐसाइक्लिक टर्पिनायड बनाने के लिए जैविक आइसोपेन्टेन इकाई का संघनन

P and Q are correct

A P और Q सही हैं

P is correct and Q is wrong

B P सही है और Q गलत है

P is wrong and Q is correct

C P गलत है और Q सही है

P and Q are wrong

D P और Q गलत हैं

Answer Key: A

**Q88 :** Which of the following technique is not the desorption ionization technique in mass spectrometry ?

निम्नलिखित में से कौनसी तकनीक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिकी में विशेषण आयनीकरण तकनीक नहीं है ?

A FAB

FAB

B CI

CI

C MALDI

MALDI

SIMS

D SIMS

Answer Key: B

**Q89 :** Number of signals in the  $^{13}\text{C}$  NMR spectra of m-xylene and p-xylene are respectively,

m-जाइलिन और p-जाइलिन के  $^{13}\text{C}$  NMR स्पैक्ट्रा में सिग्नलों की संख्या क्रमशः है-

A 3 and 5

3 और 5

B 4 and 3

4 और 3

C 5 and 3


5 और 3

D 6 and 2


6 और 2

Answer Key: C

**Q90 :** Calculated value of  $\lambda_{\max}$  for the following compound is



निम्नलिखित यौगिक के लिए  $\lambda_{\max}$  का परिकलित मान है-



A 323 nm

323 nm

358 nm

B	358 nm
C	353 nm
	353 nm
D	368 nm
	368 nm

Answer Key: C

**Q91 :** Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है।

A	A human hair is about 80,000 nm in diameter
	मनुष्य के एक बाल का व्यास लगभग 80,000 nm है
B	A DNA molecule is about 1-2 nm wide.
	एक डीएनए अणु लगभग 1-2 nm चौड़ा है
C	Our finger nail grow at the rate of 1 nm per second
	हमारी ऊंगलीयों के नाखुन 1 nm प्रति सैकेंड की रफ्तार से बढ़ते हैं
D	All of these
	सभी सही हैं

Answer Key: D

**Q92 :** The efficiency of today's best solar cell is about

आज के सबसे अच्छे सोलर सैल की क्षमता लगभग है

A	15-20%
	15-20%
B	35-45%
	35-45%
C	60-65%
	60-65%
D	75-80%
	75-80%

Answer Key: B

**Q93 :** The 'Platform compound' derived from lingo cellulosic biomass that can be converted to biofuels and biochemicals is

लिंगनो स्लयूलोसिक बायोमास से बनाया गया 'एलेटफार्म यौगिक', जो कि बायोफ्यूल और बायोकैमिकल में प्रवर्तित किया जा सकता है, है-

A	Acetic acid ऐसिटिक अम्ल
B	Furfural फरफ्यूरल
C	Phenol फिनॉल
D	None of these इनमें से कोई नहीं

Answer Key: B

**Q94 :** Ethanol is commercially produced by one step oxidation of ethene in presence of the following catalyst

एथीन के एक पदीय आक्सीकरण द्वारा ऐथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है।

A	$[\text{PdCl}_4]_2^-/\text{CuCl}_2$ $[\text{PdCl}_4]_2^-/\text{CuCl}_2$
B	$\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$ $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$
C	$[\text{PdCl}_4]/\text{CuCl}_2$ $[\text{PdCl}_4]/\text{CuCl}_2$
D	$[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_2]^-$ $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_2]^-$

Answer Key: A

**Q95 :** Which of the following is bacteriostatic antibiotic ?

निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु निरोधी प्रतिजैविक है ?

A	Penicillin पैनिसिलिन
B	Fluroquinolone फ्लोरोक्यूनोलोन

C	Tetracycline टेट्रासाइक्लीन
D	Aminoglycoside ऐमीनोग्लाइकोसाइड
Answer Key: C	

**Q96 :** Match the following

K	Chlorpropamide	1	Anticancer drug
L	Phenacetin	2	Antiabetic drug
M	Melphalam	3	Anrihypertensive drug
N	Verapamil	4	Analgesics
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए			
K-क्लोर प्रोपेरामाइड		1	कैंसर रोधी औषधि
L-फिनेसीटीन		2	प्रतिजैविक औषधि
M-मैलफेलाम		3	एंटी हाइपर टैनसिव औषधि
N-वैरापैमील		4	दर्द निवारक औषधि
A	K-4, L-2, M-3, N-1		
	K-4, L-2, M-3, N-1		
B	K-2, L-4, M-1, N-3		
	K-2, L-4, M-1, N-3		
C	K-1, L-3, M-4, N-2		
	K-1, L-3, M-4, N-2		
D	K-3, L-1, M-2, N-4		
	K-3, L-1, M-2, N-4		
Answer Key: B			

**Q97 :** The synthetic supramolecules prepared by 'up or bottom-up' technique are of the order of  
'अप या बॉटम-अप' तकनीक द्वारा सांस्लेष्टि ब्रहद अणु (सुपरा अणु) की कोटि है।

A	1000 nm
	1000 nm
B	10 nm
	10 nm

C	100 nm 100 nm
D	1 nm 1 nm
Answer Key: B	

**Q98 :** The Nobel prize in the field of 'Supramolecular Chemistry' was awarded in the years  
सुपरा आण्विक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन वर्षों में दिया गया था

A	1986 and 2015 1986 और 2015
B	1987 and 2017 1987 और 2017
C	1987 and 2016 1987 और 2016
D	1986 and 2017 1986 और 2017
Answer Key: C	

**Q99 :** Leprosy is a disease caused by  
कुष्ठ रोग बिमारी का कारण है।

A	Bacteria जीवाणु
B	Virus विषाणु
C	Deficiency of lactose in the body शरीर में लैक्टोस की कमी
D	Deficiency of Lipid in the body शरीर में लिपिड की कमी
Answer Key: A	

**Q100 :** What is in Kyoto Protocol ?  
क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है ?

A	An international treaty on climate change जलवायु बदलाव पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि
B	To reduce green house gases emission ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना
C	To check ozone depletion ओजोन के क्षरण की जाँच
D	All of these सभी सही हैं
Answer Key: D	